

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2015—माघ 17, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल —462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2015

क्र. एफ-65-02-2015-तीन-नपा-263. —मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद बडोनी, जिला दतिया के माह जनवरी 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र.	नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद बडोनी,	अध्यक्ष	—	—	सावित्री किशोर दलाल	भारतीय जनता पार्टी
2	जिला दतिया.	पार्षद	1	एक	अशोक काँकोरिया	बहुजन समाज पार्टी
3		पार्षद	2	दो	कु. नीलम दुबे	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	सुनीता	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	राजेन्द्र खटीक	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	मुकेश कुमार प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	आनन्द चोबे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	संजय गुप्ता (सोनू इटौरिया)	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	रजनी रामकुमार यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	कमलेश छुट्टई राजा	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	सुनीता महेन्द्र भट्टेले	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	रमा देवी पत्नी सुनील	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	नगर परिषद बडोनी,	पार्षद	12	बारह	मोनिका गगन गुप्ता	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14	जिला दतिया.	पार्षद	13	तेरह	रामस्वरूप सेन पूर्व सरपंच	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	दंगल सिंह यादव	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	काशीराम आदिवासी	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2015

क्र. एफ-65-02-2015-तीन-नपा-264.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद वनखेडी, जिला होशंगाबाद के माह जनवरी 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र.	नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद वनखेडी,	अध्यक्ष	—	—	काशी बाई कुंजीलाल पटैल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2	जिला होशंगाबाद.	पार्षद	1	एक	इमरती बाई दयाराम कतिया	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	दादूवीर पटैल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	अशोक कुमार रघुवन्शी	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	दुर्गेश कुमार फुलवर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	नीतू हेमराज कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	किरण कुमार पूर्वी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	संतोष	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	संजय कुमार (बंटी)S/o श्री राजकुमार जैन.	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	रचना नीलेश व्यास	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	सुरेंद्र कुमार साहू	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	शालिनी कसेरा पति सुनील कुमार.	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	परवीन बानो पति मजीत खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	प्रीति बल्लभदास सातल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	कमलाबाई फागूसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रघुराज सिंह पलिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.